

*This question paper contains 3 printed pages.*

6306

Your Roll No. ....

**B.A. (Hons.) / I**

**E**

**PSYCHOLOGY— Paper PSH-1**

**(General Psychology)**

**Time : 3 hours**

**Maximum Marks : 75**

*(Write your Roll No. on the top immediately  
on receipt of this question paper.)*

**NOTE:—** *Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.*

**टिप्पणी:—** इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

*Attempt any five questions.*

*All questions carry equal marks.*

*किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

*सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

1. Discuss Psychology as a science. Illustrate your answer with suitable examples.

एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान पर चर्चा कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को चित्रित कीजिए।

10,5

P.T.O.

2. Describe the major features of operant conditioning and discuss its applications in everyday life.

बंदीशानिंग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रोज़मर्रा की जिंदगी में उसके अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। 10,5

3. Explain the determinants of attention. Discuss the filter model of attention.

ध्यान के निर्धारकों के बारे में बताइए। ध्यान का फिल्टर मॉडल पर चर्चा कीजिए। 5,10

4. Discuss Memory. Explain information processing model of memory.

मेमोरी पर चर्चा कीजिए। स्मृति का सूचना प्रोसेसिंग मॉडल समझाइए। 5,10

5. What is motivation? Critically discuss theories of motivation.

प्रेरणा क्या है? गंभीर रूप से प्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। 5,5,5

6. Define Personality. How can personality be assessed?

व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? 5,5,5

7. Discuss the role of physiological process in the expression of emotions. Give suitable examples to support your answer.

भावनाओं की अभिव्यक्ति में शारीरिक प्रक्रिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उत्तर का समर्थन करने के लिए उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

10,5

8. Define Intelligence. Discuss the important theories of intelligence.

बुद्धि परिभाषित कीजिए। बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए।

5,10

9. Explain the concept of stress. Discuss important coping strategies.

तनाव की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामना करने की महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा कीजिए।

5,10

10. Write short notes on any *two* of the following:

(a) Creative Thinking

(b) Depth Perception

(c) Experimental Method

(d) Forgetting.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लघु टिप्पणियाँ लिखिए:

(a) रचनात्मक सोच

(b) गहराई की अनुभूति

(c) प्रयोगात्मक विधि

(d) भूलना।

7.5+7.5